

सहारनपुर: नकली सौंदर्य प्रसाधन सामग्री बनाने वालों का भंडाफोड़, जब्त हुआ 1.25 करोड़ का नकली माल

सहारनपुर एसपी सिटी विनीत भटनागर ने बताया कि रंग गोरा करने के नाम पर नकली सौंदर्य प्रसाधन बनाने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. ये लोग ताहिर गार्डन में पिछले 2 साल से सौंदर्य प्रसाधन के नाम पर नकली चीजें बना रहे थे



सहारनपुर: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में रंग गोरा करने वाली क्रीम का काला धंधा करने वाले 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया. पुलिस ने इनके पास से 1.25 करोड़ लागत की नकली सौंदर्य प्रसाधन सामग्री भी बरामद की है. वहीं 4 आरोपी अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं. नकली सौंदर्य प्रसाधन बनाने वाले लोगों के बारे में पुलिस को काफी दिनों से शिकायत मिल रही थी, लेकिन ये लोग हर बार पुलिस को चकमा दे देते थे.

सहारनपुर एसपी सिटी विनीत भटनागर ने बताया कि रंग गोरा करने के नाम पर नकली सौंदर्य प्रसाधन बनाने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. ये लोग ताहिर गार्डन में पिछले 2 साल से सौंदर्य प्रसाधन के नाम पर नकली चीजें बना रहे थे और इन नकली समानों को कई राज्यों में सप्लाई भी कर रहे थे.

एसपी सिटी ने बताया कि इन लोगों पर पुलिस काफी दिनों से नजर रख रही थी. बुधवार की सुबह खबरी से इनके बारे में नकली सौंदर्य प्रसाधन बनाने की खबर मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने इनके ठीकाने पर छापा मारा. पुलिस की इस छापेमारी में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, वहीं 4 अन्य आरोपी फरार हो गए. पुलिस उनकी भी तलाश कर रही है. जल्द ही उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

पुलिस अधिकारी के मुताबिक मौके से 1.25 करोड़ रुपये के नकली समानों की बरामदगी की गई है. इसके लिए अलावा इनके पास से नकली सौंदर्य प्रसाधन बनाने वाली मशीन भी बरामद की गई है. उन्होंने बताया कि ये लोग नकली समानों को अधिक दामों पर बेचने का काम करते थे. पुलिस की तरफ से शहर की उन दुकानों को भी खंगाला जाएगा, जहां पर ये समानों की सप्लाई करते थे.

इन सामानों की हुई है बरामदगी

पकड़े गए आरोपियों के पास से सिंगल नोजल वाली फीलिंग व सीलिंग मशीन, फेयर एंड लवली नाम से नकली सौंदर्य प्रसाधन, पोंड्स के नाम से नकली फेस वॉश सहित फेस पर लगाए जाने वाले अन्य सौंदर्य प्रसाधन, पतंजलि नाम से नकली नीम एवं तुलसी फेस वॉश के साथ कई चीजें बरामद हुई हैं.